


बिस्तर के कीड़े 101:

पहचान एवं रोकथाम हेतु अतिथि सत्कार पेशेवरों की मार्गदर्शिका



बिस्तर के कीड़ों की संख्या तज़ी से बढ़ सकती है, इसलिए उनकी शुरुआत की पहचान करना और संक्रमण का जल्दी उपचार करना महत्वपूर्ण है। बिस्तर के कीड़ों की बढ़ती समस्या के प्रमाण का पता लगाने और उसे रोकने के लिए आप जो कार्य कर सकते हैं, इसके लिए कुछ युक्तियां नीचे दी गई हैं।

संकेतों का “पता लगाना”:

- ❖ बिस्तर के कीड़े आम तौर पर दिन के समय छिपे रहते हैं, इसलिए उनका पता लगाना कठिन होता है। बिस्तर के कीड़ों के संकेतों में जीवित कीड़े, छोड़ी गई त्वचा, मल के दाग और काटने के निशान शामिल हैं।
- ❖ ऐसे छोटे-छोटे, स्याही के रंग के धब्बों को खोजें जो ये अपने पीछे इन पर छोड़ते हैं:
 - गद्दे के टैग और सिलाई
 - सीट के कुशन के नीचे
 - छत
 - सिरहाने के पीछे
- ❖ छिपने के संभावित स्थानों (लगाए गए वॉलपेपर या कारपेट) या गर्मी जैसी बिस्तर के कीड़ों को आकर्षित करने वाली स्थितियों पर नज़र रखें।
- ❖ बिस्तर के कीड़ों के संकेत मिलते ही तुरंत रखरखाव विभाग को रिपोर्ट करें।



यदि बिस्तर के कीड़ों का प्रमाण मिलता है, तो:

यह न करें:

- ❖ उस क्षेत्र को और अधिक छेड़ना (“स्थान” को वैसे ही छोड़ देने से Orkin को समस्या का निदान करने में सहायता मिलती है)।
- ❖ कमरे से किसी भी वस्तु को निकालना।

यह करें:

- ❖ उस कमरे के लिए रूम सर्विस बंद कर दें और उसे पृथक कर दें।
- ❖ यदि कमरे में अतिथि ठहरे हुए हों, तो उन्हें नए कक्ष में ले जाने के लिए प्रबंधन से मिलें।
- ❖ निम्न कार्य करने के लिए तत्काल Orkin से संपर्क करें:
 1. संक्रमण के संदेह वाले कक्ष का निरीक्षण करें
 2. जिस कमरे में अतिथियों को ले जाया जाना है, उसका पूर्वोपचार करें।

यदि ORKIN की जांच में बिस्तर के कीड़ों के होने की पुष्टि हो जाती है:

- ❖ सेवा के निर्दिष्ट कमरों को Orkin की बेड बग सर्विस प्रिपैरेशन चेकलिस्ट के अनुसार तैयार करना, जिसमें शामिल है:
 - फ़र्नीचर को कक्ष के मध्य में लाना और उसे उलटा करना
 - दीवारों पर लगी सभी वस्तुओं को निकालना या ढीला कर देना
 - प्रत्येक कक्ष की परिधि के आसपास वाले कालीन को ढीला करना
 - गद्दे, बॉक्स स्प्रिंग तथा कालीन (कारपेट) सहित लकड़ी के पट्टों को निवार्त पंप से साफ़ करना



PEST CONTROL DOWN TO A SCIENCE.®